

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या- 794 /XXIV-2/2018-12(01)/2017
देहरादून : दिनांक 14 दिसम्बर, 2018
कार्यालय आदेश

एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यहित में अधोलिखित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्य-दायित्व प्रदान किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती/दायित्व	नवीन कार्यभार
1	2	3	4
1.	श्री गोविन्द राम जायसवाल, खण्ड शिक्षा अधिकारी	प्रभारी उप निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून। उक्त पद के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा से संबंधित Court Cases का कार्य	शासनादेश संख्या 96/ XXIV-2/ 2018-12(01) /2017 दिनांक 20. 03.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित Court Cases का कार्य-दायित्व हटाया जाता है। शेष कार्य-दायित्व यथावत् रहेंगे।
2.	श्री आनन्द भारद्वाज, उप निदेशक	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, देहरादून।	वर्तमान पद-दायित्व के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा से संबंधित Court Cases का कार्य भी देखेंगे।

उपर्युक्त कार्य-दायित्व के सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि :-

1. उक्त अधिकारी अपने नवीन दायित्व का तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त कार्य हेतु पृथक से कोई वेतन-भत्ते इत्यादि देय नहीं होंगे।
3. उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)

सचिव


संख्या- 794 (1)/XXIV-2/18-12(01)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव-मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मा. शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
7. अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक/बेसिक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
8. सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(कवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव